

थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 03 बदमाश गिरफ्तार, अवैध असलाह व मो0सा0 बरामदा

दि0 28.01.21 को थाना कोतवाली पर वादी श्री अब्दुल रहमान पुत्र कायम अली नि0 मो0 महमंदगढ़ी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर द्वारा सूचना दी गयी कि 02 व्यक्तियों द्वारा दि0 26.01.21 की शाम जब वह अपनी दुकान पर थे तो उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी से 24 घण्टे के अंदर 01 लाख रू0 की रंगदारी मांगी गयी, न देने पर बच्चे का अपहरण करने की धमकी दी एवं दि0 27.01.21 की रात्रि में मोबाइल फोन पर भी दोबारा रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 46/21 धारा 387,452,504,507 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा रंगदारी मांगने की घटना को गम्भीरता से लिया गया तथा श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा प्रवेश सिंह प्रभारी निरीक्षक नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर अभियुक्तगण की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिये गये तथा प्रतिदिन की कार्यवाही की मानटरिंग स्वयं की जाने लगी।

इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलित कर सर्विलांस के माध्यम से 03 अपराधियों 1- राममूर्ति वर्मा 2- अंकित वर्मा 3- राहिल पुत्र सरताज को समय 07.30 बजे लोहारों वाला चौराहा से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 अदद तमंचा 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मो0सा0 भी बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से द्वारा पूछताछ पर 02 अन्य साधियों के साथ मिलकर घटना कारित किया जाना बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. राममूर्ति वर्मा पुत्र मेवाराम नि0 ग्राम बरनई थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. अंकित वर्मा पुत्र सालिगराम निवासी आनन्दपुरम कालोनी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
3. राहिल पुत्र सरताज नि0 मो0 वाजिदखेल थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।

फरार अभियुक्तों का विवरण:-

1. राजन सिंह पुत्र वैधनाथ सिंह नि0 मो0 सिंजई थाना कोतवाली शाह0
2. कुलदीप ठाकुर पुत्र अज्ञात नि0 आंझी शाहाबाद हरदोई।

बरामदगी का विवरण –

1. घटना में प्रयुक्त मो0सा0 UP 27AC 4899 अपाचे नीला रंग
2. 01 अदद मोबाइल फोन
3. 01 अदद तमंचा 315 बोर
4. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अनावरित अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 46/21 धारा 387,452,504,507 भा0द0वि0 थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 52/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।

पुलिस टीम का विवरण –

1. श्री प्रवेश सिंह S.H.O. थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
2. S.S.I. श्री शिवबरन यादव थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
3. S.I. श्री वीरपाल सिंह थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
4. S.I. श्री अजयवीर सिंह थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
5. हे0का0 134 सचिन कुमार थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
6. का0 1423 सुधांशु थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
7. का0 2056 अंकित थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर।
8. का0 संजीव कुमार सर्विलांस सेल, शाहजहाँपुर।
9. का0 अजय कुमार सर्विलांस सेल, शाहजहाँपुर।

